

# नीतीश- मोदी को हटाए बिना नहीं होगा न्याय

By : Editor Published On : 30 Oct, 2020 08:02 PM IST



मुंगेर । मुंगेर में देवी दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान लोगों पर पुलिस की कथित गोलीबारी की घटना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को हटाए जाने की मांग की। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि इन दोनों के पद पर बने रहने तक इस मामले में न्याय नहीं हो सकता। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला एक लीपापोती वाली कार्रवाई है और ऐसे में उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। गौरव वल्लभ ने कहा कि जलियांवाला बाग की तरह मुंगेर में घटना हुई जब मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए जा रहे भक्तों पर पुलिस ने गोली चलाई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कांग्रेस ने कहा कि बिहार सरकार इस लीपापोती से बाहर आए, जिनके आदेश पर गोली चली है और उनको निलंबित किया जाए। वैसे अगले कुछ दिनों में नीतीश की विदाई होने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री को अभी बर्खास्त किया जाए या फिर वह तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मैं 'निर्दयी कुमार' (नीतीश) और 'निर्मम मोदी' (सुशील मोदी) जी से पूछना चाहता हूं कि आप जंगलराज की बात कर रहे हैं, लेकिन इस गोलीबारी को क्या कहेंगे? साथ ही कहा कि इस मामले में न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। अगर न्याय होना है तो इन्हें हटाया जाना जरूरी है। बता दें कि जिले में सोमवार को देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन को लेकर झड़प के दौरान कथित तौर पर हुई पुलिस गोलीबारी में एक युवक की मौत की घटना के बाद गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित शहर में अन्य स्थानों पर तोड़फोड़ की गई और वाहनों को आग लगा दी। वहीं, निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारी राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह को तत्काल हटाने के साथ मगध प्रमंडल के आयुक्त असंगबा चुबा एओ को पूरी घटना की जांच करने का आदेश दिया है। PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/नीतीश-मोदी-कोहटाए-बिना-नह/>